



भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRA
Part I Sec. 1
Part I - Sec. 1
1979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Division. IOD

No. 21153

No. 9.10.80

Checked

सं० 195]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 3, 1979/आश्विन 11, 1901

No. 195]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 1979/ASVINA 11, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अप्रत्यक्ष कर प्रभाग

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1979

सार्वजनिक सूचना

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 3rd October, 1979

PUBLIC NOTICE

सं० प्रतिप्रवायगी/सां०सू०63/79:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रवायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रवायगी/सां०सू०1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित यथासंशोधन करती है:—

उपक्रम सं० 2203 की मद (ख) के सामने "प्रतिप्रवायगी की दर" स्तम्भ में अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"जमा उपर्युक्त मद (क) की उप मद (2) से (5) तक के सामने दर्शायी गई दरों पर यथास्थिति, उनकी फिटिंगों के लिये प्रतिप्रवायगी की दर जब उनका निर्यात प्लाईवुड पैनलों के साथ उसी पोतलदान बिल में किया गया हो।"

यह सार्वजनिक सूचना, 9 अप्रैल 1977 को लागू हुई समझी जाएगी।

No. DRAWBACK/PN-63/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time:—

In the column 'Rate of Drawback' against item (B) of sub-serial No. 2203, the following shall be added at the end, namely:—

"plus the rate of drawback for fittings therefor at the rates shown against sub-item (ii) to (v) of item (A) above, as the case may be, when exported along with the Plywood Panels in the same Shipping Bill".

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 9th day of April, 1977.

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिप्रदायणी/सा० सू० 64/79:—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति प्रदायणी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायणी/सा० सं० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम सं० 1924 की मद (ii) के सामने "माल का विवरण" स्तम्भ में "एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा चादें आदि"।

यह सार्वजनिक सूचना 16 जून, 1976 से लागू हुई समझी जायेगी।

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-64/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

In the column "Description of goods" against item (ii) of sub-serial No. 1924 for the words "Acrylic Moulding Powder", the following shall be substituted, namely :—

"Acrylic Moulding Powder or Sheets etc."

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 16th day of June, 1976.

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिप्रदायणी/सा० सू० 65/79:—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायणी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/76-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायणी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :

- (1) उप-क्रम सं० 2502 की मद (क) की उप मद (ब) के सामने दी गई प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।
- (2) उप-क्रम सं० 2502 की मद (ग) के सामने की प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।
- (3) उप-क्रम सं० 2503 के खण्ड (ग) की मद (i) की उप मद (ब) के सामने की प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।
- (4) उप-क्रम सं० 2503 के खण्ड (ग) की मद (i) की उप मद (ब) के सामने की प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।
- (5) उप-क्रम सं० 2503 की मद (ग) की उप मद (ii) के सामने की प्रविष्टियाँ निकाल दी जाएंगी।

यह सार्वजनिक सूचना 4 अक्तूबर, 1979 से प्रवृत्त होगी।

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-65/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the

Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. The entries against sub-item (e) of item (A) of sub-serial No. 2502 shall be deleted.
2. The entries against item (C) of sub-serial No. 2502 shall be deleted.
3. The entries against sub-item (e) of item (i) of clause (C) of sub-serial No. 2503 shall be deleted.
4. The entries against sub-item (f) of item (i) of clause (C) of sub-serial No. 2503 shall be deleted.
5. The entries against sub-item (ii) of item (C) of sub-serial No. 2503 shall be deleted.

This Public Notice shall come into force on the 4th day of October, 1979.

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिप्रदायणी/सा० सू० 66/79:—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायणी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायणी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2629 और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित परिष्कारित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिप्रदायणी की दर
2629	तन्तु प्रविष्टि सूत अविष्टि अथवा फेब्रिक अविष्टि से, गार्नेटिंग अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से प्राप्त तन्तुओं से बनाए गये सूत से, जिनमें ऊन सबसे अधिक हो, विनिर्मित कम्बल और कम्बल बनाने का कपड़ा	
	सूत अन्तर्वस्तु	
(क)	ऊनी सूत की अन्तर्वस्तु (जिसमें शुद्ध ऊन 0.55 (केवल पचपन वैसे) 5% से अधिक नहीं हो) जो आमतौर पर प्रति कि० ग्रा० ऊन के अविष्टि के रूप में (गोड्डी) जानी जाती है	
(ख)	रंजक अन्तर्वस्तु, यदि माल रंजित सूत माल की सूत अन्तर्वस्तु का अथवा रंजित वस्त्र के रूप में हो	0.15 (केवल पंद्रह वैसे) प्रति कि० ग्रा०

यह सार्वजनिक सूचना 4 अक्तूबर, 1979 से लागू होगी।

PUBLIC NOTICE

No. DRAWBACK/PN-66/79.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No.

DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

For sub-serial No. 2629 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
2629	Blankets and Blanketing cloth which are manufactured from yarn, in which wool predominates, made out of fibres obtained from fibre waste, yarn waste or fabric waste by garnetting or by any other process.	
	Yarn Content—	
	(a) Content of woollen yarn (containing not more than 5% virgin wool) commonly known as shoddy.	Rs. 0.55 (Paise fifty five only) per kg.
	(b) Dye content if the goods are yarn dyed or piece dyed.	Rs. 0.15 (Paise fifteen only) per kg. of the yarn content of the goods.

This Public Notice shall come into force on the 4th day of October, 1979.

शुद्धि-पत्र

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 67/79.—भारत के राजपत्र (प्रसाधरण) भाग 1, खण्ड (1) तारीख 1 अगस्त, 1979 में प्रकाशित विनांक 1 अगस्त, 1979 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 53/79 में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 3608 के खण्ड (क) के उपखण्ड (ग) की मद (i) की उपमद (क) के सामने "प्रतिप्रदायगी की दर" स्तम्भ में "307.00 रु० (केवल तीन सौ सात रुपये) प्रति मेट्रिक टन" के स्थान पर "607.00 रु० (केवल छः सौ सात रुपये) प्रति मेट्रिक टन" पढ़ें।

महेश कुमार, अधर सचिव

CORRIGENDUM

No. DRAWBACK/PN-67/79.—In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-53/79 dated the 1st August, 1979 published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part I, Section (1) dated the 1st August, 1979, the Central Government hereby makes the following corrections therein :—

In the column 'Rate of drawback' against sub-item (a) of item (i) of sub-clause (c) of clause (A) of sub-serial No. 3608 for "Rs. 307.00 (Rupees three hundred and seven only) per tonne" Read "Rs. 607.00 (Rupees six hundred and seven only) per tonne".

MAHESH KUMAR, Under Secy.

